

# MANGALAM CEMENT LTD.



MCL/SEC/2023-24 6<sup>th</sup> November, 2023

The Corporate Relation Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plat No. C/1, G – Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400 051

The Corporate Relation Department Department of Corporate Services BSE Limited, 25<sup>th</sup> Floor, Phiroz Jeejeebhoy Towers Bandra (East), Dalal Street, Mumbai - 400 001

**Security Code: MANGLMCEM** Script Code: 502157

Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, the Company has published the Unaudited Financial Results for the quarter and half-year ended 30th September, 2023 in 'Financial Express' (English) edition and in 'Rajasthan Patrika' (Hindi) edition on 4th November, 2023.

Further, in pursuance of Regulation 30 read with Schedule III (A) (12) please find enclosed the copy of Newspaper articles as published in above mentioned newspapers.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Mangalam Cement Limited

Pawan Kumar Thakur GM (Legal) & Company Secretary and Compliance Officer **Encl: As Above** 

Regd. Office & Works: P.O. Aditya Nagar-326520, Morak, Distt. Kota (Raj.) CIN: L26943RJ1976PLC001705, Telefax: 07459 - 232156

Website: www.mangalamcement.com, E-mail: email@mangalamcement.com

Kota Office

: Shop No. 20, 80 Feet Road, Opp. Sukhdham Colony, (Near SBI Bank) Kota - 324001 (Rajasthan)

Mob: 9351468064, E-mail: mclkta@kappa.net.in

Delhi Office

: 153, Leela Building (GF), Okhla Indl. Estate, Phase-III, New Delhi - 110020

Tel. No.: 011-43539132, 43539133, 43539137 Fax: 011-23421768

E-mail: delhi.purchase@mangalamcement.com, delhi.marketing@mangalamcement.com

Jaipur Office

: 2<sup>nd</sup> Floor, Geejgarh Tower, Hawa-Sarak, Jaipur - 302 006 (Rajasthan)

Tel.: 0141 - 2218933, 2218931, E-mail: jaipur.marketing@mangalamcement.com

**FINANCIAL EXPRESS** 

# 16 COMPANIES

# DMI Finance Private Limited

CIN - U64990DL2008PTC182749

Express Building, 3rd Floor, 9-10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2023 Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)]

(Rs in Millions For the guarter For the quarter **Previous Year** No. September 30, September 30, ended as on **Particulars** 2022 March 31, 2023 **Total Income from Operations** Total revenue from operations 6,215.22 4,354.64 16,368.82 40.10 196.24 Other Income Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 1,523.90 932.47 4.378.58 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or 1,523.90 932.47 4,378.58 Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or 1,132.57 687.97 3,240.16 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) 1,125.11 687.44 3,414.70 for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 7,424.84 6,567.00 6,567.75 Paid up Equity Share Capital 33,388.20 35,493.42 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 58,556.71 Securities Premium Account 46,560.96 25,707.55 25,711.77 42,061.17 Net worth 65,981.55 39,955.20 40,968.71 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 50,557.85 35,881.05 11. Outstanding Redeemable Preference Shares 0.00 0.00 0.00 12. Debt Equity Ratio 0.89 0.97 0.76 13. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 4.93 0.95 4.86 2. Diluted: 1.51 81.21 81.21 14. Capital Redemption Reserve 81.21 N.A. N.A. N.A. Debenture Redemption Reserve N.A. N.A. N.A. 16. Debt Service Coverage Ratio 17. Interest Service Coverage Ratio

- The above results are an extract of detailed format of the quarterly/annual Finan-cial Results filed with the stock exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. These financial re-sults are available on the website viz. www.dmifinance.in and on the website of BSE (www.bseindia.com)
- For the other items referred in Regulation 52(4) of (Listing Obligations and Dis-closure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Limited (BSE) and can be accessed on the website of BSE (www.bseindia.com) and on the
- There is no Debenture Redemption Reserve created as Non-Banking Finance Companies (NBFC) registered with Reserve Bank of India are not required to create DRR for privately placed debentures.
- Reserves include Securities Premium Account and Capital Redemption Reserve al-so. Paid up Debt Capital / Outstanding Debt include Debt Securities, Borrowings and Lease Liabilities.
- Figures for the prior year / period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.
- The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
  - The above results have been approved by the Audit Committee at its meeting held on November 02, 2023 and subsequently approved by the Board of Direc-tors at their respective meeting held on November 03, 2023.

For DMI Finance Private Limited

Shivashish Chatterjee Joint Managing Director

Notes:

Date: November 03, 2023

Place: New Delhi

# S H KELKAR AND COMPANY LIMITED CIN: L74999MH1955PLC009593

Regd. Office: Devkaran Mansion, 36 Mangaldas Road, Mumbai - 400002 India

Website: www.keva.co.in, E - mail: investors@keva.co.in, Tel No. +91 22 21649163, Fax No: +91 22 21649766 Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30, 2023

₹ in Crore										
Particulars	Quarter ended 30 September 2023	Quarter ended 30 June 2023	Quarter ended 30 September 2022	2023	Six months ended 30 September 2022	Year ended 31 March 2023				
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
Total Income from Operations	457.24	446.00	422.90	903.24	838.15	1,698.33				
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,										
Exceptional and/or Extraordinary items)	41.17	39.10	34.88	80.27	65.15	124.63				
Net Profit / (Loss) for the period before tax	7000000	(0)0000	2011093		.000,000	20020000				
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	41.17	39.10	35.15	80.27	66.64	104.36				
Net Profit / (Loss) for the period after tax	10000	Self-rest	2.00-00	14.09000000	GARGEY	5-110-5-2				
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	30.16	27.83	25.23	57.99	48.46	62.95				
Total Comprehensive Income for the period										
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)										
and Other Comprehensive Income (after tax)]	-4.04	2.37	-8.29	-1.67	-10.77	0.75				
Equity Share Capital	138.42	138.42	138.42	138.42	138.42	138.42				
Reserve excluding Revaluation Reserves as										
per balance sheet of previous accounting year						925.96				
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						2364,555,000				
(for continuing and discontinued operations) -										
Basic:	2.16	2.01	1.80	4.16	3.40	4.53				
Diluted:	2.16	2.01	1.80	4.16	3.40	4.53				

Key numbers of standalone financial results:     Particulars	Quarter ended 30 September 2023	Quarter ended 30 June 2023	Quarter ended 30 September 2022	Six months ended 30 September 2023	Six months ended 30 September 2022	Year ended 31 March 2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	239.00	239.34	229.78	478.34	439.90	893.44
Profit before Tax	29.18	41.90	6.55	71.08	31.30	76.59
Profit after Tax	21.83	34.72	2.66	56.55	21.08	52.17

- 2 The above consolidated financials results of S H Kelkar and Company Limited, its subsidiaries (collectively referred to as 'the Group' were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on November 3, 2023 and subsequently approved by the Board of Directors of S H Kelkar and Company Limited ('the Company') at its meeting held on November 3, 2023. The statutory auditors of the Company have reviewed the above results for the quarter and six months ended September 30,2023 in pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "the Listing Regulations, 2015"). The above results are filed with the Stock Exchanges and available on Group website
- ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Listing Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and six months ended September 30, 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website - www.keva.co.in

The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and six months

Basic and Diluted earning per share for the quarter and six months ended September 30, 2023 is adjusted for the effect of treasury shares held by the Company.

For S H Kelkar and Company Limited

Place: Mumbai Rohit Saraogi Date: 03 November, 2023 Company Secretary

## LYKIS LIMITED CIN: L74999MH1984PLC413247

Registered Office: 4th Floor, Grandeur Building, Veera Desai Road, Opp. Gundecha, Symphony, Andheri - West, Mumbai- 400053, Maharashtra, India

Tel: +91 22 4069 4069 Fax: +91 22 3009 8128 | E-mail: cs@lykis.com | Website: www.lykis.com EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

Standalone

FOR QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

		Charlestone			Consolination			
SI. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2023 (Unaudited)	Half Year ended September 30,2023 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2022 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2023 (Unaudited)	Half Year ended September 30,2023 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2022 (Unaudited)	
1.	Total Income from Operations	8960.80	16545.60	11607.73	9958,95	19215.79	11856.49	
2.	Net (Loss) before Tax from Continuing operations	74.50	112.00	287.21	191.33	310.61	352.44	
3.	Net (Loss) after Tax from Continuing operations	86.92	124.42	287.21	203.75	323.03	352.44	
4.	Net Profit/ (Loss) before tax from Discontinued Operations		-			19	(6)	
5.	Net Profit/ (Loss) after tax from Discontinued Operations			100	18	81		
6.	Profit/(Loss) for the year	86.92	124.42	287.21	203.75	323.03	352.44	
7.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	88.77	128.11	287.19	206.98	328.07	351.49	
8.	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	1937.52	1937.52	1937.52	1937.52	1937.52	1937.52	
9.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.45	0.64	1.48	1.05	1,67	1.82	
10	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for discontinuing operations) -  1. Basic:  2. Diluted:	-			*	84	*	

- ) The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the website of the Bombay Stock The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of
- Directors at its meeting held on November 03, 2023. The limited review as required under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed by
- the Auditors of the company. By order of Board of Directors

For Lykis Limited Mr. Nadir Umedali Dhrolia

Managing Director

(₹ in Lakhs)

Consolidated

COMFORT FINCAP LIMITED CIN: L65923WB1982PLC035441 Registered Office: 22. Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal:

Place: Mumbai

Place: Mumbai

Date: November 03, 2023

**EITA INDIA LIMITED** 

[FORMERLY: E.I.T.A India Limited]

CIN: L51109WB1983PLC035969 Regd. Office: 20-B, Abdul Hamid Street,

4th Floor, Kolkata-700 069.

Phone: 033-22483203

E-mail: eita.cal@eitain.com,

Website: www.eitain.com

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 meeting

of the Board of Directors of the Company

will be held at its Registered office at 20B

Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata-

700069 on Friday 10th November, 2023 at

1.30 P.M., inter alia to consider and take on

record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year

The Notice is also available on the

Company's website at www.eitain.com and

on the Stock Exchange website at

By Order of the Board

For EITA India Limited

Arvind Kumar Lohia

Managing Director

Sd/-

ended September 30, 2023.

Date: 03.11.2023

www.cse-india.com.

Place: Kolkata

Date: November 03, 2023

Corporate Office.: A-301, Hetal Arch.Opp. Natral Market, S.V.Road, Malad (West), Mumbai- 400064 Phone No.: 022-6894-8500/08/09, Fax: 022-2889-2527; Email: info@comfortfincap.com; Website: www.comfortfincap.com EXTRACT OF THE UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR

ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Sr.	<u> </u>		Quarter Ended	1	Half Yea	h, except EPS Year Ended	
No.	Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
		(Unaudited)			(Unau	(Audited)	
1	Total Income	377.25	342.54	411.89	719.79	808.51	1473.28
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items and/or Extraordinary items)	221.80	206.25	186.98	428.05	356.70	657.84
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	221.80	206.25	186.98	428.05	356.70	657.84
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items, and share of (Profit/Loss) of associates)	164 01	150 52	139.88	314 54	265.02	488 23

488.22 and Other comprehensive Income/Loss 164.01 150.52 139.87 314.53 1085.13 Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- each) 1085.13 1085.13 1085.13 1085.13 1085.13 Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous accounting 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3923.04 Earnings Per Share (EPS) Face value of Rs. 2/- each! 0.58\* 0.26 0.49\* 0.28\* \*Not Annualised

The above unaudited financial results are reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November

The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023. filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results (standalone and consolidated) are available on the Company's website at www.comfortfincap.com and on the website of the stock exchange(s) where the Company's shares are listed i.e. at www.bseindia.com and www.cse-india.com. The extract of the unaudited standalone financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023 of Comfort Fincap Limited is as

Sr. No.	Particulars		Quarter Ended				Year Ended	
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	
Alcos			(Unaudited)	(Unau	(Audited)			
1	Total Income	377.25	342.54	411.89	719,79	808.51	1473.28	
2,	Profit/(Loss) before tax	221.80	206.25	186,98	428.05	356.70	657.84	
3.	Profit/(Loss) for the period	164,01	150.52	139.88	314.54	265.02	488.23	

Subsequent to quarter ended 31st March 2023, the equity shares of the Company were split/sub-divided such that each equity share having face value of INR 10/- (Rupees Ten only), fully paid-up, was sub-divided into five (5) equity shares having face value of INR 2/- (Rupees Two only) each, fully paid-up with effect from 05th May, 2023 (Record Date). The Earning Per Share (EPS) of the current quarter and all comparative periods presented above have restated to give effect of the share split.

For and on behalf of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited

Ankur Agrawal Director and Chairperson DIN: 06408167

# **Sterlite Power** to demerge its transmission biz

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 3

POWER TRANSMISSION **INFRASTRUCTURE** developer and solutions provider Sterlite Power Transmission on Friday said it has decided to demerge electricity transmission infrastructure business spread across India and Brazil.

The demerged Sterlite Power Transmission Ltd (SPTL) entity will continue to hold the global products and specialised EPC (engineering, procurement and construction) services business as well as the convergence - fiberco business, a company statement said.

SPTL announced the strategic decision to demerge its power transmission infrastructure business (build, operate and transfer model) spread across India and Brazil.

This move comes as part of the company's intent to create 'pure play' business verticals based on end-customer base. investor class and returns.

Pratik Agrawal, Managing Director, SPTL, said in the statement, "The demerger will enable both entities to create independent capital structures, unlock value and attract investors suitable for the disentity. We are confident that the US, it stated.

# **STRATEGIC** MOVE

■ SPTL announced the strategic decision to demerge its power transmission infrastructure business spread across India and Brazil

■ Both SPTL and SGL5 will have independent boards and focused executive management teams

this will bring substantial value for our shareholders and help us in creating two world class business entities." Globally, it stated, the power transmission network is expected to double in the next eight years to meet aggressive renewable energy additions. The demand for power products is expected to remain strong over the medium term amid aggressive global capex earmarked for renewables capacity addition, T&D (transmission and distribution) expansion, benefits from 'China+1' theme and tinct growth profiles for each favourable tariff structures in

# '70-hour work week violates labour laws'

A 70-HOUR WORK week could raise compliance issues as it violates labour laws, a senior official of staffing company TeamLease said on Friday.

"If somebody is spending 70 hours (in office), they are going beyond 9 hours. There is a fundamental disconnect, when you are an employee, labour law allows you to work nince hours," vice president and business head for Team-Lease Degree Apprenticeship Dhriti Prasanna Mahanta said.

Former Infosys CEO N R Narayana Murthy had recently advocated for a 70-hour work week, drawing reactions from across the spectrum.

The cost of employment, if a 70-hour work week is made possible, will also increase, and in a lot of places you are not allowed to pay overtime, he said. He said this works for entrepreneurs and self-motivated persons but can't be accepted due to labour law compliance norms in place.

Amount (Rs. in crore)

# Apollo

# INDRAPRASTHA MEDICAL CORPORATION LIMITED

Registered office: Sarita Vihar, Delhi Mathura Road, New Delhi - 110076 Corporate Identity Number: L24232DL1988PLC030958 Phone: 91-11-26925858, 26925801, Fax: 91-11-26823629 E-mail: imclshares@apollohospitals.com, Website: delhi.apollohospitals.com

Extract of Statement of unaudited Financial Results for the Quarter and half-year ended 30th September, 2023

	C21 W C2		Quarter ended	Ř.	Half-Yea	Year ended	
S. No.	Particulars	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (Net)	321.17	310.07	285.76	631.24	549.85	1108.70
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	43.65	40.23	33.75	83.88	60,57	117.18
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	43.65	40.23	33.75	83.88	60.57	117.18
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	32.85	30.50	25.13	63.35	45.41	86.15
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	32.63	30.16	20.96	62.79	41.02	76.93
6	Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the audited balance sheet of previous year	Proposition of the Contract of	0.0000	500000	(Consequent)		287.78
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic & Diluted	3.58	3.33	2.74	6.91	4.95	9.40

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and half-year ended 30th September, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financia results for the quarter and half-year ended 30th September, 2023, are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website. Shivakumar Pattabhiraman Place : New Delhi

Date: 3rd November, 2023

(Managing Director) DIN: 08570283

MAX

oncrete Ka Sachoka Saeth



# **GODAWARI POWER & ISPAT LIMITED**

Regd. Office: 428/2, Phase-I, Industrial Area, Siltara, Raipur (C.G.) Corporate Office: Hira Arcade, Pandri, Raipur (C.G.) 492001 CIN.: L27106CT1999PLC013756, Tel: 0771-4082000, Website: www.godawaripowerispat.com, E-mail: yarra.rao@hiragroup.com

		CONSOLIDATED							
S.	Particulars	3 1	MONTHS END	ED	6 MONTH	IS ENDED	YEAR ENDED		
No.		Unaudited 30.09.2023	Unaudited 30.06.2023	Unaudited 30.09.2022	Unaudited 30.09.2023	Unaudited 30.09.2022	Audited 31.03.2023		
1	Total income from Operations	1314.21	1344.37	1333.34	2658.58	3015.72	5857.10		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	342.81	289.04	220.68	631.84	665.73	1097.31		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	342.81	306.88	220.68	649.68	665.73	1082.58		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	256.71	230.88	168.64	487.58	495.84	793.36		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	272.51	234.35	159.74	506.85	486.71	779.03		
6	Paid Up Equity Share Capital	62.36	62.36	64.86	62.36	64.86	64.86		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	3 23	12	16	20	0 91 <u>2</u> 3	3840.59		
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)(before and after extraordinary items) -  (a) Basic  (b) Diluted	20.60 20.60	18.51 18.51	12.99 12.99	39.11 39.11	38.21 38.21	61.16 61.16		

	S. Particulars			St	andalone		
e		31	MONTHS END	6 MONTHS	YEAR ENDED		
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
1	Total Income From Operations	1239.21	1225.98	1227.38	2465.19	2721.43	5380.96
2	Profit/(Loss) before tax	342.11	299.06	227,56	641.17	640.54	1077.63
3	Profit/(Loss) after tax	255.98	223.64	176.14	479.62	479.92	798.22

Notes: 1. The Financial Results of the company for the quarter and half year ended 30th September, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on 03rd November, 2023 and Limited review report issued by auditor thereon.

2. The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the quarter and half year ended 30th September, 2023 filed with stock exchanges under regulation 33 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.godawaripowerispat.com)

For and on behalf of Board of Directors

Abhishek Agrawal **Executive Director** 



Place: New Delhi

Date: 3rd November, 2023

# MANGALAM CEMENT LIMITED

Regd.Office: P.O.Adityanagar-326520, Morak, Distt.Kota (Rajasthan) CIN-L26943RJ1976PLC001705

Website: www.mangalamcement.com • email: communication@mangalamcement.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER-2023 (Rs. in Lakhs)

	Q	Quarter ended			Half Year ended		
Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	
The residence of the second control of the s	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	
Total Income	43630.31	42622.73	40834.48	86253.04	92651.34	183653.43	
Profit before interest, depreciation and tax (PBIDT)	5614.64	5710.23	1623.07	11324.87	9486.60	18280.37	
Net Profit before tax and exceptional items	2012.08	2306.40	(1979.32)	4318.48	2418.89	4717.16	
Net Profit before tax and after exceptional items	2012.08	2306.40	(3924.41)	4318.48	473.80	2772.07	
Net Profit after tax	1178.96	1469.44	(2711.75)	2648.40	98.13	1712.30	
Total comprehensive Income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	1163.46	1486.02	(2691.81)	2649.48	154.01	1816.17	
Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share)	2749.73	2749.73	2749.73	2749.73	2749.73	2749.73	
Other equity	-	- 1	-	8.70	-	72872.53	
Earning per share (of Rs. 10/- each ) Basic & Diluted	4.29	5.34	(9.86)	9.63	0.36	6.23	

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Year Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Year Financial Results are available on the Stock exchanges websites, www.nseindia.com, www.bseindia.com and Company's web site www.mangalamcement.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 3rd November, 2023 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

New Delhi

By Order of the Board Anshuman Vikram Jalan Chairman DIN: 01455782

Place: Raipur

Date: 03.11.2023



# जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा 8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना डा. ऑथों तेल जोड़ों के दर्द को

जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें।





## पार्टी विशेष का प्रचार के लिए दबाव बनाने का आरोप, जांच के आदेश

कोटा (धिकका केटा वर्गल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिक्ट्स मेन्टीनेस पूर्वट के एक प्रतिश्च कर्मवरी ने जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कार्मिक अधिकारी पर एक पार्टी शिवेष का अवाजकरा पर एक पाटा त्राव्य कर प्रचार के लिए अनावस्थक दक्कव बनाने की शिकायत की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में वर्मल के मुख्य अधिवार से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए है। इस पर धर्मल प्रशासन ने जांच अधिकारी कार्मिक अधिकारी जांच अधिकारी कार्मिक अधिकारी धर्मवर्षि को जांच अधिकारी पिछ्वन किया है। प्राथी भारत ने विकासत में बताया कि कार्मिक अधिकारी शिवप्रकारत मीणा ने उत्कार दो माह का भुगतान भी रोक रखा है। इधर, धर्मक के मुख्य अधिकार के अर्थ ने बताया कि प्रायी भरत कुमार के मामले में पहले जो जांच करवाई गई थै, वह फर्जी मिस्ती। कार्मिक अधिकारी पर पार्टी किरोण का प्रचार के मामले में निर्वाचन विभाग को शिकारना बें। इस मामले में जांच शिकायत की। इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है।

# 3300 लीटर वॉश की नष्ट

रावतभाटा. पुलिस ने मुक्कवर को उपखंड के जावदा और भैसरोडगढ़ में कार्रवाई करते हुए कच्चे महुआ की 3300 लीटर व्यंत्र नष्ट कर अवैध सराब बनाने की भट्टियां स सामग्री को नष्ट किया।

# रिश्वत मामले में सरपंच के विरुद्ध एसीबी कोर्ट में चालान पेश

काटाकु पात्रका. एसावा स्थतन यूनिट करेटा ने दुकानों के नकरों प्रमाणित करने की एकज में 35 हजार रुपए रिश्का लेने के मामले में भरतपुर के ग्रोपालगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध भरतपर के एसीबी न्यायालय में

भारतपुर के एसाओ न्यायालय में चारतान पेश कर दिया। मोपालगढ़ निवासी परिवादी मुकेश कुमार दीक्षित ने एसीधी कोटा देहात के उप अधीक्षक विजय सिंह की परिवाद दिया का कि उसने 3 दकाने गजेन्द्र शर्मा को गिरबी रखकर उसके पक्ष में जरिए रजिस्टी बेचान कर दी थी। मियाद पूरी होने

पर व्याज सहित मूल रकम गजेन्द्र को जुकता कर दी थी। उका तीन दुकानों को वापस अपने नाम रिजस्ट्री करवानी थी। दुकानों के नकते को ग्राम पंचयत गोफलगढ़ से प्रमाणित करने के एक्स में सरपंच भगवान सिंह 60 हजार रुपए मांग भगवान सिंह ६० हजार रूपए मान रहा है। शिकायत का गोपनीय सत्यापन करख्या तो आरोपी सरपंच 35 हजार रूपए लेने पर सहमत हो गया। एसीबी टीम ने 9 सितम्बर 2022 को ट्रेम कर आरोपी सरपंच को परिवादी से रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस

# थ्रेशर की चपेट में आई महिला को पुत्री ने बचाया

राबतभाटा @ पत्रिका. फंस गया। साड़ी उल्हरते हुए गले में भैसरोडगढ़ के जगपुरा गांव में फांबी जेंसा फंटा बन गया। महिला शुक्रवार को दोत पर मूंगफली के बाल भी खुले थे, इस वजह से निकालने का काम करते समय पत्थे में बाल भी उल्हा गए। शॉर प्रख्य म करन भा उत्तक्षा गए। शार सुनकर उसकी पुत्री चंदा देंद कर आई और अपनी मां क्ये देंद कर जोर से पकड़ लिया। इसके बाद पिता को मदर के लिए खुलाया, पिता ने खिचुत संबंध विच्छेद किया और फिर खेंद्री ने केली से खाल कर कर बेशर की चपेट में आई महिला को प्रशर को जयर में आई माहला का उसकी 17 क्योंपि पुत्री ने ब्हार्ड्स के साथ श्रेशर में जाने से रोक दिया और श्रेशर में फेसे बाली को करदकर बेहोश मां को लेकर अस्पताल पहुंच गई। चिक्त्सिकों ने महिला की गंभीर गई। विशोकस्तका ने माहित्य का गामार हालत को देखते हुए कोटा रिफर कर दिया। जानकारों के अनुसार जगपुरा निकासी मीताबाई (58) श्रेशर मशीन से मृंगफली निकालने का कार्य कर रही थी। अचानक गीता के साड़ी का पल्लु मशीन के पंछी में ाफर कटा ने काजा से बारा काट कर सामी काट दी। गले में फंदे के कसावट से महिला बेहोज़ हो गई। महिला के सिर पर गंभीर चोट आई। उसे उप जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर

द्वारा एसीखी टीम से धक्का मुक्की कर रिरुक्त ग्रांशि में से 28 हजार करण दुवर्ट-चुर्द कर रिए। टीम को मीके से 7 हजार रुपए ही बरामद दुए। आरोपी सरपंच भाग्यान सिंह के खिलाफ ग्रन्थाचार निकारण ऑपिनयम के लहत मामला दर्ज किया। अनुसंधान में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचारती ग्रांत विभाग के ज्ञासन संचिव से आरोपी के विरुद्ध अभियोजन स्थीकृति मिल्लो के बाद सुकृत्वार प्रशिक्त मिल्लो के विरुद्ध एसीबी न्यायल्य भरतपर के विरुद्ध एसीबी न्यायालय भरतपुर में चालान पेड किया गया।

#### खड़े ट्रक को मारी टक्कर, दो घायल

सुकेत (२) पश्चिका, नेशनल लाइवें 52 फोरलेन पर खड़े ट्रक के पीछें से मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। योगी ट्रकों की पिड़ंत में मिनी ट्रक डाइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बता ट्रक का टाइप हा गया। वहां वहां दुक का टावर पचर बना रहा एक व्यक्ति भी प्रायश हो गया। एक टुक पंचर हो गया। जिसे अब्दुल हमीद मिखी सुधार रहा था। अचानक से झालबाइ की तरह से तेज रफ्तार में झालकाड़ का तरह स तंत्र स्तार स्तार आय ट्रक घोटे से खड़े ट्रक में जा मिना। डिसमें पंचर बना रहा अन्द्रत हमीद प्रधान हो गया। वही मिनी ट्रक डाहबर सागर निवासी मत्त्रपुर भी धायल हो गया। दुर्घटना में सागर के खेनी पेर केबिन में फंसने के कारण चीट आई है।

# लड्ढा ने जीता एसआईपी चैंपियन अवार्ड

कोटा@ पत्रिका. शेयर खेकर पंकज लहता ने मुंबई में आयोजित केफेम्यूचुजल कॉन्प्लुएंस 2023 में प्रतिचित कान्यनुसर्व 2023 म प्रतास्थत कैफेम्यूनुअल विग लोग अवार्ड जीता है। पक्रज लहुदा ने व्यक्तियत म्यूनुअल फेड श्रेणी में 6 हजार से अध्रिक निवेशकों की एसआईपी करके देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

हर बुंद

में असर



कार्यातव राज्य समन्वयक, पीटीईटी-2023 गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कार्यातय राज्य समन्वयक, पीटीईटी-2023

Uttara

Place: New Delhi Date: 3rd November, 2023

### MANGALAM CEMENT LIMITED

Regd.Office: P.O.Adityanagar-326520, Morak, Distt.Kota (Rajasthan) CIN-L26943RJ1976PLC001705 www.mangalamcement.com - email : communication@mangalamce

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER-2023 Half Year ended Year ended Quarter ended Half Year ended Tear ended 0.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 31.03.24.87 9486.60 18280.37 4318.48 2418.89 4717.16 4318.48 473.80 2777.07 31.03.2023 31.03.20 
 UNAUDITED
 UNAUDITED

 40834.48
 86253.04

 1623.07
 11324.87

 (1979.32)
 4318.48
 otal Income rofit before interest, depreciation and tax (PBIDT) Net Profit before tax and exceptional items. Net Profit before tax and after exceptional items 2306.40 (3924.41) met rismic besore tax and after exceptional items.

Net Profit after tax.

Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax).

Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- Per Share).

Other equity. (2711.75) (2691.81) 2749.73 2749.73 2749.73 2749,73 2749.73 Earning per share (of Rs. 10/- each ) Basic & Diluted 4.29 5.34 (9.86) 9.63

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Year Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Year Financial Results are available on the Stock exchanges websites, www.nseindia.com, www.bseindia.com and Company's web site www.mangalamcement.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at thei respective meetings held on 3rd November, 2023 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

By Order of the Board Anshuman Vikram Jalan Chairman DIN: 01455782

MANY



